

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 फरवरी 2011—फाल्गुन 7, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्र. 1288-63-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH BILL

No.1 of 2011.

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT)  
BILL, 2011.**A Bill further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2011.  
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**Amendment of Central Act No. VII of 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.**

2. The court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

**Amendment of Schedule II.**

3. In the Schedule II to the principal Act, in article 1, in clause (b), for items (i), (ii) and (iii) and entries relating thereto, the following items and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

" (i) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is upto one lakh	Five percent of the amount of dishonoured cheque subject to the minimum of two hundred rupees.
(ii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than one lakh rupees but upto five lakh rupees.	Minimum five thousand rupees, plus four percent on the amount in excess of one lakh rupees.
(iii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than five lakh rupees.	Minimum twenty one thousand rupees, plus three percent on the amount in excess of five lakh rupees subject to maximum one lakh fifty thousand rupees."

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In writ petition (Civil) No. 1022 of 1989, All India Judges Association and others versus Union of India and others, the Supreme Court of India has directed in an interim order dated 12th July, 2010, that with a view to generate the revenue for infrastructural development of subordinate judiciary, court fees leviable on the complaint filed for an offence triable under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (No. 26 of 1881) for dishonoured cheques, be enhanced. In compliance of this order, it is decided to rationalise such court fees by suitable amendment in Schedule II to the Court-fees Act, 1870, in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :

Dated the 10th February 2011.

DR. NAROTTAM MISHRA  
Member-In-Charge.